

LATL:CS:BM:2021-22 Date: 14.06.2021

BSE Limited

Listing Compliance Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code : 532796

The National Stock Exchange of India Limited

Listing Compliance Department Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Symbol: LUMAXTECH

Subject: Newspaper Cuttings of audited Financial Results for Q4 and Financial Year ended 31st March, 2021.

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith copies of the audited Financial Results for the 4th Quarter and Financial Year ended 31st March 2021, published yesterday i.e. 13th June, 2021 in the following Newspapers:

- 1. Financial Express (English- All Edition)
- 2. Jansatta (Hindi- Delhi Edition).

The published copies of aforesaid results will also be made available on the website of the Company at www.lumaxworld.in/lumaxautotech.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

ANIL TYAGI COMPANY SECRETARY M.NO. A-16825

Encl.: as above

Lumax Auto Technologies Limited 1st Floor, Plot No.2, Udyog Vihar Udyog Phase-IV, Gurugram-122002 Haryana, India

T +91124 6179600, 4241675 E shares@lumaxmail.com



From the Front Page

Fears of 3rd wave shadow outlook for auto sector

Preetam Mohan Singh, senior vice-president, Auto-motive, Praxis Global Alliance, said because Covid-19 spread into tier-2 cities this time and into tier-2 cities this time and depleted savings of crores of Indians in urban and rural India, sales of entry-level cars (costing up to ₹4 lakh) and two-wheelers will get negatively impacted. "But cars priced above ₹6-0dd-lakh will continue to sell well because people in this segment have cash. Marriages haven't stopped and people will start

orporated / Registered porate Identity No. of corporate debtor

Address and e-mail to be used for com

tal income (Net) et Profit/ (Loss) for the per

Net Profit/ (Loss) for the period be

(after Exceptional items)
Net Profit (Loss) for the period after tax
(after Exceptional items)
Total Comprehensive Income for
the period (Comprising Profit/ (Loss) for
the period (after tax) &
Other Comprehensive Income (after tax)

the period (affer tax) & Other Comprehensive Income (affer tax)] Paid-up Equity Share Capital (Face value of INR 10- per share) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shrown in the Audited Belance Sheet of the previous year Earnings per share (of INR 10/- each) Basic and Diluted (INR)

Particulars

Place: Pune Date: June 11, 2021

Additional information on standalone financial results is as follow

Address of the Registered O Office (if any) of Corporate I

to travel, but at the bottom of to travel, but at the bottom of the pyramid there is a major economic impact this time," he said. "The silver line is that goods carriers, especially LCVs, may see rising demand because last-mile connectiv-ity is still required." Over the next few months,

within CVs, analysts say the impact on buses will be sub-stantial, on M&HCVs moder ate, and on LCVs the least.

ate, and on LCVs the least.
Som Kapoor, partner,
Automotive Sector, EY India,
said the intensity of the second wave's impact will
become clearer in about a
month. "The second wave has
hit closer to home," he said.
"The level of confidence peo-

Satyadev Plaza, 5th Floor, Fun Republic Lane Off.

J-347, Block J, Sarita Vihar, New Delhi - 11007F

E-44/3, Pocket D, Okhla Industrial Area, Phase II New Delhi-110020,

Web Link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads Physical address: Not Applicable

TAAL ENTERPRISES LIMITED

EXTRACT OF THE STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021 Quarte 31-Mar-2021 3,016.67

838.41

838.41

748.38

311.63

22.76

31-Mar-2020 31-Mar-2021 31-Mar-2020 3.311.78 12,383.85 13,769.80

3.813.73 3.155.72

311.63

7314.10

For TAAL Enterprises Limit

Whole Time Director

1976.59

311.63

4741.17

55.46

567.41

111 13 3813.73 2561.09

10.28 3196.22

311.63

(0.45) 102.05

(361.73) (361.73)

lot Applicable

FORM A - Public Announcement

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITIONS PROJECT INTERVIEW THE CREDITIONS OF THE ATTENTION OF THE CREDITIONS OF THE ATTENTIONAL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS

Name of Coppuse Deleter

Wicznaf International Entertainment Private Limit

ple have on our medical infra-

ple have on our medical infrastructure and with the rollout of vaccines is low, people are anticipating a third wave. Instead of buying a car, you will tryto save cash." While he added that sales of HCVs will get better — high-way construction grew by 74% in April-May 2021 to 1470 km gr. 31 km page day. 74% in April-May 2021 to 1,470 km or 241 km per day — two-wheeler sales in rural areas will be negatively impacted. Although there is a huge two-wheeler appetite in small towns and villages, because Covid-19 hit even rural areas, people may not want to open their wallets in anticipation of the third wave of the control of the control

On the third wave con cerns, Saket Mehra, partner, Grant Thornton Bharat, said fear surrounds consumers' thoughts. "The sentiment would take time to pick up

B.C. POWER CONTROLS LIMITED

(CIN: L31300DL2008PLC179414) Regd. Office: 7A/39, WEA Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-11000

Email: info@bonlongroup.com
Website: www.bcpowercontrols.com
none: 011-47532795, Fax: 011-475327

company i.e. www.bcpowercor well as website of Stock Excha ted) i.e. www.bseindia.com.

her, in accordance with SEBI (Prohisider Trading) Regulations 2015
Company's Code of Conductention of Insider Trading, the "Trading the "Trading the "Browt for dealing in the Securities on pany was classed."

(Ankit Gar

for people to divert their

for people to divert their interest towards buying a vehicle. A period of subdued spending is likely till the end of July-August 2021." He added that last year there was revenge shopping by consumers in retail, white goods and vehicles. "Auto demand rose by 10-15% dur-ing the festive season, with ing the festive season, with 40% of the demand coming 40% of the demand coming from rural areas. This year, too, the demand will rise till the festive season, but rural may not contribute significantly due to increased healthcare spend during the second wave." Mehra said. "Amodest increase by 1-7% in benchmark prices of certing the from your least of the contribute of t certain Kharif crops may also not encourage some parts of rural India for discre-

tionary purchases. Two-wheelers, Mehra added, will experience tardy

growth. "Extended plant shutgrowth. Extended plants thut-downs and reduced footfalls at dealerships have resulted in a double-digit de-growth month-on-month in the cur-rent year. Increased health-care spend, lower penetration of mediclaim facilities and lower disposable income in the hands of people particu-larly in rural areas might result in slower demand recovery for two-wheelers."

of deals changing to some extent; says Anand Rhad-kamkar, CEO, Denstu India. Official broadcaster Star India was aiming to earn about ₹3,500 crore in advertising revenue this year with ad spots being sold for about ₹13 l

the very essential categories such as consumer durables includes fall and the such as consumer durables includes fall and the such as consumer durables includes fall and the selling carbonated drinks and fruit juices may stay away, say analysts.

The festive season may attract a different set of brands "Since the matches will be a precursor to the festive season, apparel brands, two-wheelers, four-wheeler brands, etc, may find the remaining matches avaluable avenue on which to advertise, says Sandeep Goyal, founder, Mogae Media.

Brands may not be able to exit deals inked with the broadcaster because the event has not been can.

event has not been can celled entirely; thus, nei celled entirely; thus, nei-ther party will be able to invoke the force majeure clause. Therefore, brands are finding other ways to utilise their investment. Siddharth Devnani, co-founder and director, SoCheers, says, "Advertisers are thinking of diverting their IPL media buys to sub-brands that may become relevant in Sep-become relevant in Sep-

sub-brands that may become relevant in Sep-tember-October." upGrad, a brand that chose to stay out of IPL 2021 after investing in IPL 2020, is considering adver-tising on IPL-Phase 2. "We

expect the mood of the nation

expect the mood of the nation to be quite different during to the property of Cup instead of a depleted IPL," says Goyal.

PC shipments under cloud as economic activity down

Shipments of 'gaming-capable' machines grew almost 65% Y-o-Y as the pan-demic gave rise to a need for new forms of entertainment,

new forms of entertainment, given movie theatres, theme parks, pubs and restaurants were closed for much of the year, he noted.

Besides, Aithal noted that India could soon become a major manufacturing hub for PCs, as the government has extended its production-linked incentive (PLI) scheme for smartphone manufacturing to the PC industry. ing to the PC industry. "Manufacturers

"Manufacturers are expected to get incentives for laptops manufactured and priced above ₹30,000 (\$400) and tablets priced above ₹15,000 (\$200). Canalys

expects most ODMs and oEMs to take advantage of this route, as the long-term outlook for India is still strong. While the commercial sector remains a key focus, PCs in education and for con-sumers are future hotspots," he added.

During Q1 2021, India's During Q1 2021, India's PC shipments, including tablets, grew 72% V-0-Y to reach 4 million units, comprising 517,000 desktops, 2.5 million notebooks, 930,000 tablets and 43,000 workstations. Almost all categories grew well, mainly due to a poor Q1 2020, when supply was hit due to pandemic restrictions in China. Notebooks (including

Notebooks (including mobile workstations) were the mobile workstations) were the major growth driver, as shipments grew 119% over Q1 2020. Tablets also had one of their biggest quarters since 2016, with 52% year-on-year growth. Desktop shipments fell 6% to 517,000 units due to a fall in popularity for the form factor.

GST cut for Covid test kits, drugs, equipment

"It's not an issue with the people (taxation of vaccines) as they are not paying any tax... it's free for them," revenue sec-retary Tarun Bajaj said. On Monday, Prime Minis-ter Narendra Modi

announced that the Union announced that the Union government will buy 75% of jabs from vaccine manufac-turers, including 25% of the state quota, and give it for free to the state governments for vaccination.

NOTICE

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Requisition 47 of the Securities and Exchange Board Of India (Listing Obligations and Disdosure Requirements) Regulations, 2015, final a meeting of the Board of Directors of Drain Services Limited (Inner) Indiabatis Ventures Limited; (the Company) will be held on Friday, June 18, 2021, to consider and approximent size in the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2021.

(formerly Indiabulis Ventures Limited)
Sd/-



Regd. Office: 2**Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi-110046 Website: www.lumaxworld.in/lumaxusutotech, Tet: +91 11 49957832 Email: shares@tumaxmail.com, CIN: L31909DL198IPLC349793

DK JAIN

UK, EU show little sign of defusing post-Brexit row

REUTERS Carbis Bay, England, June 12

Carbis Bay, England, June 12

BRITAIN AND THE European Union showed little sign of definising a post. Brexit trade dispute on Saturday, with both sides repeating their opposing positions even after US President Joe Biden encouraged them to find a compromise. Since Britain completed its exit from the EU late last year, relations between the two have sourced, with both acusing the other of acting in bad faith over part of their Brexit divorce deal that covers trade with Northern Ireland.

At a Groupof Seven summit in south-west-cern England, a meeting of the world's largest advanced economies, Prime Minister Boris Johnson held talks with Brench President Emmanuel Macron, German Chancellor Angela Merkel and top EU officials Ursula von der Leyen and Chardon once again that it must implement the Brexit deal in full and introduce checks on certain goods moving from Britain toduce

checks on certain goods moving from Britain to its province of Northern Ireland. Britain again

its province of Northern Ireland. Britain again called for usgent and innovative solutions.

"Both sides must implement what we agreed on," von der Leyen, European Commission president, said after meeting Johnson alongside Michel, the European Council president.

"There is complete EU unity on this," she said, adding that the deal had been agreed, signed and ratified by both Johnson's government and the blosc.

Johnson's spokes ma responded: "The PM (prime minister) in all Cases (expressed) confi-

forms on s spokesman responded: The PM (prime minister) in all cases (expressed) confi-dence in the UK's position as regards to the Northern Ireland Protocol and the desire for pragmatism and compromise on all sides."

For AXISCADES Technologies Limited Sd/- Sharadhichandrababu Pampapathi, CEO

å dhanl services **Dhani Services Limited**

(cornerly insacues ventures Linter)
red Office: Me2 & 8, First Floor, Connaught Pface, New Delhi - 110 00
CIN: 174990L 1965PL.059831
mail: support@dhani.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240,
Website: www.dhani.com

Brands rethinking ad strategies The league, even though split into two parts this year, is still expected to draw adver-tiser interest. "IPL remains a

strong media property for brands. The touchpoints are expected to change because

the matches will not be played in India resulting in the terms

: New Delhi : June 12, 2021

Place Date

LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR/QUARTER ENDED MARCH 31, 2021

Sr.		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	
No.	PARTICULARS	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	
1	Revenue from contracts with customers	38,798.18	110,792.85	27,274.39	
2	Net Profit for the period / year before tax (before exceptional items)	3,545.46	7,213.21	1,028.68	
3	Net Profit for the period / year before tax (after exceptional items)	3,482.46	7,150.21	1,028.68	
4	Profit for the period / year after tax	2,488.94	5,115.41	623.59	
5	Profit for the period / year (after taxes and non- controlling interest)	2,102.32	4,712.96	607.33	
6	Total Comprehensive income/(loss) for the period / year (after non- controlling interest)	3,358.45	8,571.19	(1,743.79)	
7	Equity Share Capital (in Rs.)	1,363.15	1,363.15	1,363.15	
8	Earnings per share (Rs. per share of face value of Rs. 2 each) Basic & Diluted (in Rs.)	3.08	6.91	0.89	
	Key Standalone Financial Information				
1	Revenue from contracts with customers	31,061.80	90,294.89	21,679.87	
2	Net Profit for the period / year before tax	2,086.62	5,566.82	846.12	
3	Total Comprehensive Income/(loss) for the period / year	2,813.88	8,063.05	(1,729.09)	

These consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind - AS) as prescrib-under Section 133 of the Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and releva amendment thereafter.

The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the

meeting held on June 12, 2021 Audit under regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by Statutory Auditor of the group.

The Group business activity falls within a single business segment is, e.manufacturing and trading of Automotive Components and therefore, segment reporting in terms of rind. As 18 da on Segmental Reporting is onta applicable.

The Group has considered the possible effects that may result from the global health pandemic relating to COVID-19 in preparation of these financial results including recoverability of carrying value of financial and non-financial assets, based on the internal and external information available upto the date of approval of these financial results. The Group is continuously monitoring any material changes in

Indust economic conditions.

The Board of Directors have recommended a dividend of Rs. 3/- per equity share (31 March 2020: Rs.3/- per equity share) for the Financial Vear 2020: 21 subject to approval of the shareholders.

The above financial results are available on the Company's website www.lumaxworld.in/umaxautotech and also on the websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.nseindia.com).

For and on behalf of the Board of Directors of

Lumax Auto Technologies Limited D. K. Jain Chairman DIN: 00085848

	Rs. In lakhs except per share						
S.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
No.		Mar/21 (Unaudited)	Dec/20 (Unaudited)	Mar/20 (Unaudited)	Mar/21 (Audited)	Mar/20 (Audited)	
1.	Total income from operations	6,569,63	6,442.64	5,760.82	25,279.21	25,514.44	
2	Net Profit(loss) for the period (before tax and exceptional items)	319.95	158.01	(151.98)	395.43	(1,861.49)	
3.	Net Profit(loss) for the period before tax (after exceptional items)	232.53	158.01	(23,773,75)	308.27	(25.256.65)	
4	Net Profit(loss) for the period after tax (after exceptional items)	156.92	125.45	(23,781.90)	222.68	(24,773.32)	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit! (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	176.13	125.45	(23,939.19)	241.89	(24,933,96)	
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each)	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90	
7.	Other equity				18,562.84	18,320.95	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 55-each) Basis Diluted:	0.10 0.10	0.08 0.08	(14.62) (14.62)	0.14 0.14	(15.23) (15.23)	

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

				Rs. In la	khs except p	er share dat
S.	projection thanks	Quarter Ended			Year Ended	
No.	Particulars	Mar/21 (Unaudited)	Dec/20 (Unaudited)	Mar/20 (Unaudited)	Mar/21 (Audited)	Mar/20 (Audited)
1.	Total income from operations	6,799.16	6.783.14	6,778.39	27,643.35	30,272.68
2	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(377.06)	(408.41)	(1,277.73)	(2,418.39)	(4,729.37)
3.	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(464.48)	(408.41)	(33,208.06)	(2.505.55)	(36,644.52)
4.	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(522.29)	(418.21)	(33,118.73)	(2,539.17)	(35,930.50)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(818.25)	(338.46)	(33,879.43)	(2,428.98)	(36,321.91)
6.	Paid-up Equity Capital (Face Value Rs.5 each)	8,134,90	8,134.90	8,134 90	8,134.90	8,134.90
7	Other equity				2,181.21	4,610.20
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : Diluted:	(0.32) (0.32)	(0.26) (0.26)	(20.36) (20.36)	(1.56) (1.56)	(22.08) (22.08)

Dr. Kailash S. Chi

AXISCADES Technologies Limited (formerly AXISCADES Engineering Technologies Limited)

CIN NO: 112200CA1990P(100443)

Repd. Office: Block C. Second Flore, Kribschar Breinness Partl, Begeplaru - 550024, Karnataka, India
Website: www.noiscades.in. Ennati: Indio(Duisscales.in. Tat. + 91 80 1919 909, Tax. + 91 80 4193 909

Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2021 (Rs. In Lac March 31, 2021 (Audited) March 31, 2020 (Audited) ch 31, 2020 Total income from operations
Net Profit; I (Jose) for the period (tectorn Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)
Net Profit; I (Jose) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)
Net Profit; I (Jose) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)
Net Profit; I (Jose) for the period (Stronginal and/or Extraordinary item)
Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit; I (Loss) for the period
Other Comprehensive income (after tax). 1,889.51 1,889.51 1,889.51 1,889.51 29,623.46 serves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous yearings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)

New Delhi

Particulars		Quarter ended		Year er	ided
	March 31, 2021 (Audited)	December 31, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)	March 31, 2021 (Audited)	March 31, 2020 (Audited)
Income from Operations (Turnover)	3,277.92	3,321.61	6,233.36	13,516.58	23,475.01
Profit before tax	(3,840.08)	(407.92)	285.22	(6,415.81)	(100.49)
Profit after tax	(3,798.21)	(418.54)	86.01	(6,324.81)	(448.32)

financi<mark>al</mark>en epar.in

राजस्थान में डीजल भी सौ रुपए लीटर हुआ

नई दिल्ली, 12 जुन (भाषा)।

कच्चे तेल के दामों में वैश्विक बाजार में कंच्य तेल क दोमा म वाश्वक बाजार स तंजी के कारण सरकारों पेट्रेलियम विराणन कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 27 पैसे और डीजल में 23 पैसे की वृद्धि की। गत चार मई के बाद पेट्रोलियम दत्यारों के

गत चार में इक बाद पट्टालियम उत्पादा क वामों में 23 बार वृद्धि की गई है जिससे राजस्थान में डीजल सी रुपए लीटर और कर्नाटक में पेट्रोल सौ रुपए लीटर पर पहुंच गया है। कर्नाटक ऐसा सातवां राज्य हो गया है जहां पेट्रोल का भाव सौ रुपए को छू गया है

या उससे ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल 96.12 रुपए लीटर और डीजल 86.98 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित लद्दाख में प्रेट्रोल के खुदरा भाव पहले ही सौ रुपए या उससे से ऊपर पहुंच गए थे। इस सूची में शनिवार को कर्नाटक भी जुड़ गया। कर्नाटक के बीदर, बेल्लारी, कप्पल, दावणगिरि, शिमोगा और चिकमंगलूर में पेट्रोल सौ रुपए से ऊपर की दर से बिक रहा है। बंगलुरु में पेटोल का भाव 99.39 और डीजल 92.27 रुपए लीटर है।

पट्टाल का भाव 92.27 रूप लीट है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्टाल देश में सम्बंध कंची वर पर विक रहा है। वाहां पेट्टाल का भाव 107.22 और डीजल 100.05 के भाव मिल रहा है। वाहां पीट्टाल का भाव 107.22 और डीजल 100.05 के भाव मिल रहा है। वाहां पीट्टाल का भाव 102.30 और श्रीम्पन पेट्टाल की दर 110.50 और श्रीम्पन पैट्टाल की दर 103.72 रुपए लीटर है। मुंबई में पेट्टाल और जिल्हाल के भाव 102.30 और 94.39 रुपए लीटर है। राजस्थान में ईंघन पर सबसे अधिक वेट लगता है। चार मई के बाद 23 बार की बढ़ोतरों में पेट्टाल और रुपए और डीजल 6.25 रुपए पर्संगा हो चुका है। वैदिशक बाजार में पिछले कुछ सम्त्री से रुप्ये ही। उत्तर भाव रिफर चढ़ने लगा है। बाजार को उम्मीद है कि कोविड-19 का टीकाकरण तेज होने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और मांग बढ़ेगी।

तेज होंगी और मांग बढ़ेगी।

विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर पार

मुंबई, 12 जून (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 जून, 2021 को समाप्त सप्ताह में 6.842 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 600 अरब डॉलर को पार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ0 के शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 605.008 अरब डॉलर की रेकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इस वृद्धि का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई अच्छी वृद्धि है। यह कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। इससे पहले 28 मई, 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.271 अरब डॉलर बढकर 598.165 अरब डॉलर हो गया था।

पित्रच वैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां आलोच्य सप्ताह के दौरान 7.362 अरब डॉलर बढ़कर 560.890 अरब डॉलर हो गई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां डॉलर में व्यक्त की जाती हैं। इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन में अंकित संपत्तियां भी शामिल हैं।

इस बीच, आलोच्य सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 50.2 करोड़ डॉलर घटकर 37.604 अरब डॉलर रह गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में विशेष आहरण अधिकार 10 लाख डॉलर घटकर 1.513 अरब डॉलर रह गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास देश का आरक्षित भंडार भी 1.6 करोड़ डॉलर घटकर पांच

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए टीकाकरण में तेजी जरूरी : विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 12 जून (भाषा)।

कोंबिड प्रभावित घरेलु अर्थव्यवस्था में औद्योगिक द्रयादन की रफ्तार में घट-बढ़ जारी रहने के बीच बाजार द्रिश्लेषकों का कहना है कि बाजार में मांग में सुधार और औद्योगिक गतिविधियों में मजबूती के दिखे टीकाकरण की रफ्तार ही। सरकार द्वारा औद्योगिक द्रयादन

स्पनार क्षरा जावानिक उत्पादन सूचकांक के शुक्रवार को जारी आंशिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि कहने को सालाना आधार पर 134 फीसद रही जो इसी जापार के जिस्ते के निर्माण के स्थित साल मार्च की तुलना में नरमी का संकेत देती है। सरकार ने कहा है कि पिछले साल अप्रैल में देशच्यापी कठोर पूर्णबंदी के मद्देनजर औद्योगिक उत्पादन जिस तरह प्रभावित हुआ था, उसे देखते हुए उसके साथ इस साल अप्रैल के आंकड़ों की तुलना व्यावहारिक नहीं है। निवेश परामर्श कंपनी मिलवुड

केन इंटरनेशनल के सीईओ नीश भट्ट ने कहा कि इस बार के आंकड़ों की ने कहा कि इस बार के ऑकड़ों की ज़ुलना पिछले साल अप्रैल से नहीं की जा सकती क्योंकि उस समय देश के अधिकांश भागों में कठोर पूर्णवंदी लागू थी। भट्ट ने कहा कि इस साल अप्रैल की औद्योगिक वृद्धि मार्च की तुलना में 13 फीसर कम रही। केशिव्ह को इसरी लहर का उद्योग-चंधे पर असर पड़ा है। यह अप्रैल के आंकड़ों में स्वलक भी उट्टा है।

असर पड़ा है। यह अप्रल क आकड़ा में झलक भी रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण एक अच्छेखासे स्तर पर पहुंच जाने, कोरोना संक्रमण के काबू में आने, सरकारों की ओर से जायज कारोबार को जारी रखने की अनुमित दिए जाने के बाद ही औद्यागिक कामकाज में मजबूती के साथ तेजी लौटेगी।

क साथ तजा लाटगा। रीयल एस्टेट बाजार का अनुसंधान करने वाली फर्म नाइट फ्रैंक के निदेशक (अनुसंधान) विवेक राठी ने कहा कि आगे के दिनों में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की भूमिका अहम होगी। इससे

तेजी आएगी। इसी से उत्पादन क्षमताओं तजा जाएगा। इस से उत्पादन बनताजा का उपयोग और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में सुधार हो सकेगा। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा कि पार्च, 2021 की तुलना में अप्रैल का औद्योगिक उत्पादन 12 फीसद बढ़ा। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में महाराष्ट्र आर दिल्ली जस राज्या म स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधों का उत्पादन पर असर दिखा है। महाराष्ट्र का देश के विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में 18 फीसद का योगदान है। उनका कहना है कि कोविड-19 की

उनका कहना है कि काविड । ए का पहली लहर के बाद आर्थिक हाल में सुधार का ग्राफ उतार-चढ़ाव भरा रहा। श्रम बाजार पर इसका बुरा प्रभाव दिखा। राजकोषीय प्रोत्साहन कम प्रभावकारी रहे। उनकी राव में आगे भी आर्थिक गतिविधियों में सुधार में पूंजी और लाभ की भूमिका ही ज्यादा होगी। उसमें श्रम बाजार और मजदूरी की दशा में सुधार शायद ही दिखे।

कर्ज धोखाधडी मामले में गुजरात की कंपनी पर मामला दर्ज

अहमदाबाद, १२ जून (भाषा)।

नई दिल्ली, 12 जून (भाषा)।

लागत के 40 फासद सीमा 20 फीसद थी। ---- एनर्जी के

अथर एनर्जी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) व सह-संस्थापक तरुण मेहता ने एक वयान में कहा कि फेम-दो

नीति में संशोधन के जरिए सबसिडी को प्रति केडब्लूएच 50 फीसद बढ़ाया गया है। यह एक

शानदार कदम है। कोरोना विषाणु महामारी के बीच भी इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री लगातार बढ़ी हैं। इस अतिरिक्त सबसिडी के बाद हमें इस बाजार में जबरदस्त तेजी की उम्मीद है। हमारा अनुमान है कि 2025 तक

इलेक्टिक दोपहिया की बिक्री 60 लाख इकाई से अधिक हो लाख इकाइ से आधक है। जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर इलेक्टिक दोपहिया के विनिर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण केंद्र बन सकता है।

सरकार के इलेक्टिक वाहन क्षेत्र को समर्थन का स्वागत करते हुए टीवीएस मोटर कंपनी के

टीवीएस माटर कपना क संयुक्त प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने कहा कि टिकाऊ मोबिलिटी समाधान भविष्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए प्रोत्साहन बढ़ने

से इनकी मांग बढ़ेगी। सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वीकल्स (एसएमईवी) के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि यह सरकार द्वारा लिया गया एक महत्त्वपूर्ण फैसला है। इससे इलेक्ट्रिक दोपहिया के घटकर इंटरनर कम्बशन इंजन वाहनों के बराबर आ जाएंगे। इससे इलेक्ट्रिक दोपहिया के दाम बहुत ऊंचे होने की सबसे

इलेक्ट्रिक योपहिया कंपनियों का मानना है कि फेम-दों के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सर्वासडों में 50 फीसद की बढ़ोतरी कर शानवार कदम उठाया है। यह देश में पर्यावरणनुकूत वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ाने की दृष्टि से पासा पलटने वाला

का स्थानावता बढ़ान का हुए स चारता पराटन चारता करम होगा। सरकार ने शुक्रवार को फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैनकारिंग ऑफ इलीव्हक वीकल्स इन इंडिया चरण-चे (फेम इंडिया दो) योजना में ऑशिक संशोधन किया है। इसके तहत इलीव्हक दोपहिया के

अहमंतवाब, 12 जून (भाषा)।

केंद्रगीय जांच ख्यूंगे (सीबीआइ) ने युक्रवार को कर्ज की हंराफेरी कर सार्वजित्क क्षेत्र के युनियन बैंक ऑफ इंडिया को 134.42 करोंड़ रुगए का नुकसान पहुंचाने को लेकर गुजरात की एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआइ ने एक बयान में कहा कि जांच एजंसी ने मुंबई में छह स्थानों पर तलाशी ली, किसमें गड़बड़ी से जुड़े महत्त्वपूर्ण दस्तावंज बरामद हुए। कच्छ के गांधीआम स्वित कंपनी एसोसिएट हाई प्रमुख देशनालांजींज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें रामचंद के ईसरानी, ग्रीहम्मद कारक गुलेमान दरवेश, श्रीचंद सतामवास अगीचा, इंडाहिम सुलेमान दरवेश और अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के नाम हैं। यूनियन बैंक हारा चार शिकायत के अनुसार कंपनी ने न्योंकृत क्षण के निरमों और शर्ता का ताले का उन्हास कंपनी ने न्योंकृत क्षण के निरमों और शर्ता को ताल करा के स्वास वेद के स्वास वेद स्वास करा के स्वास वेद स्वास वेद स्वास के स्वास वेद स्वास वेद स्वास के स्वास वेद स्वास

'इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसिडी पासा

पलटने वाली साबित होगी'

कोरोना महामारी के बीच सूचकांक ने 2021 में बनाए कई नए रेकॉर्ड

नर्ड दिल्ली. 12 जन (भाषा)।

कोरोना महामारी से प्रभावित देश-दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में उतार-चढ़ाव के बीच इस साल यानी 2021 में बंबई शेयर बाजार के तीस कंपनी शेयरों पर आधारित सूचकांक ने कई नए रेकॉर्ड बनाए हैं।

सूचकांक ने 21 जनवरी, 2021 को दिन में कारोबार के दौरान पहली बार 50.000 अंक के स्तर को छुआ। तीन फरवरी को सूचकांक पहली बार 50,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। पांच फरवरी को सूचकांक ने कारोबार के दौरान पहली बार 51,000 अंक के स्तर को पार किया। आठ फरवरी को पहली बार सूचकांक 51,000 अंक के पार

बंद हुआ। 15 फरवरी को सुचकांक पहली बार 52,000 अंक के पार पहुंचा। 24 मई को बंबई शेयर बाजार की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूर्वीकरण ने 3,000 अरब डॉलर का ऑकड़ा छुआ। इसी तरह, 11 जुन को सुचकांक ने 52,641,53 अंक के अब तक के

52,641.53 अंक के अब तक के स्वस्तंकितिक उच्च रता को छुआ। इसी दिन सूचकांक अपने सर्वकातिक उच्च रता र है। इसी दिन सूचकांक अपने सर्वकातिक उच्च रता 52,474.76 अंक पर वाद हुआ और बीएसई की सूचीब्राई कोनीयों को बावारा पूंजीकरण रेकॉर्ड 2,31,11,214.71 करोड़ रुपए पर पहुंचा। इस कैलंडर वर्ष 2021 में अब तक सूचकांक 4,723.43 अंक या 9.89 फीसद चढ़ चुका है।

दवाओं व उपकरणों पर जीएसटी घटाने का उद्योग जगत ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 12 जून (भाषा)।

उद्योग मंडल पीएचडी सीसीआइ ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली कुछ औषधियों, उपकरणों और सामान पर माल व सेवा कर (जीएसटी) कम जार सामान पर मार्ग व स्था कर (जाएसटा) फन किए जाने का रचागत किया है और कहा है कि इससे मरीजों को राहत मिलेगी। उद्योग मंडल ने एक बयान में कहा कि दवाओं, उपकरणों और कोविड की जांच किट पर दरें कम करने

उपकरणा आर काविड की जीच किट पर दर कम करन का फैसला बहुत सीच- समझ कर किया गया है। इससे संक्रमित मरीजों को इलाज में बड़ी मदद मिलेगी जिसकी बहुत जरूरत थी। संगठन ने उम्मीद जताई है कि सरकार कोविड महामारी के दुष्टमायों के सक करने और भारत को इससे निजात दिलाने के लिए आगे

करन और भारत का इसस निजात दिलान के लिए आग और भी जरूरी पुमारावारी करमा उठाती रहेगी। जीएसटी परिषद ने शनिवार को कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच इस महामारी के इलाव में काम आने वाली कुछ दवाओं और उपकरणों पर कर की दर में कटीती का फैसला किया है। कोविड के टीके पर पांच प्रसिद्ध की कर की पर ही बनी रहेगी।

LUMAX

ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पंजी. कार्यालय : क्षितीय तल क्ष्मंच प्रचार प्रकृतिक स्थापन वेबसाइट: www.lumaxworld.in/lumaxautotech दूरमाव : +91 11 49857 ईमेल : shares@iumaxmail.com, सीआईएन : L31909DL1981PLC349

DK JAIN

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष / तिमाही के लिए समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र.		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	
₹.	विवरण	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)	
1	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	38,798.18	110,792.85	27,274.39	
2	कर पूर्व अवधि / वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदों से पहले)	3,545.46	7,213.21	1,028,68	
3	कर पूर्व अवधि / वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	3,482.46	7,150.21	1,028.68	
4	कर पश्चात अवधि / वर्ष के लिए लाम	2,488.94	5,115.41	623.59	
5	अवधि/वर्ष के लिए लाभ (कर उपरांत तथा गैर-नियंत्रण हित)	2,102.32	4,712.96	607.33	
6	कुल व्यापक आय / (हानि) अवधि / वर्ष के लिए (गैर-नियंत्रित हित के प्रश्वात)	3,358.45	8,571.19	(1,743.79)	
7	इक्विटी शेयर पूंजी (रुपये में)	1,363.15	1,363.15	1,363.15	
8	प्रति शेयर अर्जन (2/-रुपए अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर रूपये) मूल एवं तरल (रुपये में) :	3.08	6.91	0.89	
	मुख्य स्टैंडअलोन वित्तीय सूचना				
1	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	31,061.80	90,294.89	21,679.87	
2	कर पूर्व अवधि/वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	2,086.62	5,566.82	846.12	
3	अवधि/वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	2,813.88	8,063.05	(1,729.09)	

- दरणमा: . 1. संमीकित वित्तीय परिणाम, कंपनी अधिनियम, 2013 की बादा 133 के तहत निर्धारित भारतीय तंखांकन मानक (इंड-एस) के ताथ पठित कंपनी (भारतीय तंखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और उसके उपरांत जारी प्रामीग्व संशोधनों के अनुसार, तैयार किए गये हैं। उपर्यक्त संशीकतंबित्य विणामां को कंपनाचिता कांवासीका संशिद्ध वात संशीका थी गई क्या विनेशक संबद हात निर्माण 12 पूना 2021 को आंतोजित, उनकी बेटक में अनुमोरित किया गया है। शंबी (शूर्याच्यता एवं प्रकटन आंक्षाण) विनेशक मंद्र हात में उसके के तिरांत वेस्तारीसकों ज्ञात किया नियम गया है। शंबी (शूर्याच्यता एवं प्रकटन आंक्षाण) विनेशम, 2015 के विनेशम 33 के तहत, युप के सांविधिक तंबापरीकों ज्ञात कियारीका की महें हैं
- लेखाणरीकाको द्वार रेखामरीका की माई है। युष्ट को व्यवस्था प्रतिविधिता, एकत व्यवस्था संगमेट स्वयंत् औटामोदिव कोमेन्ट्रेस का निर्माण एवं व्यायार के अंतर्गत आता है और इसक्ति यूष्ट के अवस्था प्रतिविधिता, एकत संगमेट पर रिपोर्टिंग अस्ति तीत कर समुख्य स्वात्मित के स्वात्मित के अध्यय पर विद्यारी तथा गैर-वितरी तथा के सामक्ष्य के साहक मूल की बदली ताहित इस वितरीय परिचारों की तथारों में उन समाजित प्रमाने पर विद्यार विचार है जो कोमिंड—19 स्वात्म के साहक मूल की स्वात्म स्
- २ २ । ने शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन रू. 3 / प्रति इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020 : रु. 3 / प्रति इक्विटी शेयर) के लाभ

डी.के. जैन

न श्राविष्ट्रमें नानायादा या वा वा प्रेड्ड होना स्विमिडी की सीमा में बढ़ीतरी पासा पलटने वाली होगी। इससे पेट्रोल के दाम सौ रुपए लीटर पर पहुंचने के बीच उपभोक्ताओं का रुझान इलेक्ट्रिक लिए मांग प्रोत्साहन को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति केडब्लूएच कर दिया गया है। पहले सभी इलेक्ट्रिक बाहनों के लिए 10,000 प्रति केडब्लूएच की समान स्कूटरों की ओर बढ़ेगा। रिवॉल्ट मोटर्स के संस्थापक राहुल शर्मा ने कहा कि फेम दो में संशोधन पासा पलटने वाला होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ने से सबसिडी थी। इनमें प्लग इन हाइब्रिड और स्ट्रॉग हाइब्रिड शामिल हैं। बसें इसमें शामिल नहीं हैं। ताजा संशोधन के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए प्रोत्साहन की सीमा को वाहन की हाना। उन्होंने कहा का पिताय जास्ताहन बढ़न स इस श्रेणी में उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ेगी। यह इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लागत के 40 फीसद तक सीमित किया है। पहले यह

बड़ी अड़चन दूर हो सकेगी। गिल ने कहा कि अब सौ किलोमीटर/प्रति चार्ज वाले 'सिटी स्पीड इलीव्ट्रक स्कूटर' की कॉमत 60,000 रुगए से कम हो जाएगी। वार्ती 80 किलोमीटर रंज वाले हाई स्पीड स्कूटर की कीमत करीब एक लाख रुगए

हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल

ने कहा कि यह पिछले एक दशक में इलेक्ट्रिक न कहा कि वह राज्यस एक एसक में इसाक्ट्रक वाहन उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फेम-दो के तहत सबसिडी में बढ़ोतरी से देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नया दौर शुरू होगा।

Integrated Capital Services Limited
CIN: L74899DL1993PLC051981

Office: 606, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi Consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended on Mi h 31, 2021 _{Rs., Lak}

Corresponding 3 months ended in the previous yes 31,03,2020 31.03.2021

No.		March 31, 2021	March 31, 2021
(i)	Turnover*	21.16	122.59
(ii)	Profit for the period before tax	(0.44)	54.86
(111)	Profit for the period after tax	6.29	106.52
(iv)	Other comprehensive income/(loss)	0.00	(492.32)
(v)	Total comprehensive income/(loss) [comprising profit / loss for the period after tax and other comprehensive income (after tax)] (iii+iv)	6.29	(385.80)

सम्पत्तियों की ई-नीलामी 29.6.2021 ईएमडी की अन्तिम तिथि : 28.6.2021

011-28545099, 9205350991

खाता सं. आईएफ्स्ससी कोड CNRB001902

www.readwhere.com







